



MAHARAJA AGRASEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(ISO:9001:2015 Certified)

Approved by AICTE, Ministry of HRD, Govt. of India

(Affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi)

Department of Management

Report on

Orientation: 'The Connect' 2023, 15th September 2023

MBA (2023-25) & BBA (2023-26)

MAHARAJA AGRASEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
MAHARAJA AGRASEN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES

Orientation Programme
&
हिंदी दिवस समारोह

Welcomes All Freshers

For
ACADEMIC SESSION
2023-24

First Year
MBA, B.Tech (All Branches)
B.B.A, B.COM (H) , BA Eco Hons.
BA (JMC), BA LL.B, BBA LL.B, LLM

Dr. Nand Kishore Garg
Founder & Chief Advisor, MAIT

Sh. Vineet Kumar Lohia
Chairman, MAIT

Venue: Main Auditorium

Participants: MBA 1st year (2023-25), BBA 1st year (2023-26), B.Tech All dept. 1st Year

Date: 15th September, 2023

Time: 11:00 am onwards

Faculty Coordinator from Dept. Of Management: Dr. Anju Bharti & Dr. Sangeeta Rawal

Maharaja Agrasen Institute of Technology (MAIT) organized an Orientation Programme “Connect - 2023” for the incoming first-year students of MBA, BBA and B-Tech under the guidance and blessings of Dr. Nand Kishore Garg, Founder-Chairman, MATES and Shri Vineet Kumar Lohia, Chairman, MATES. The event was a splendid manifestation of the MATES' voice and vision.

The programme commenced with the lighting of the lamp by Shri S.P. Goel (Vice-Chairman, MATES), Shri Jagdish Mittal (Vice-Chairman, MATES), Shri Gyanendra Srivastava (CEO, MATES), Shri Rajnish Gupta (Secretary, MATES), Prof S.K. Garg (Director-General, MAIMS) Prof. Dr. Neelam Sharma (Director, MAIT). Prof. Dr. S.S. Deswal (Dean, Academics), Prof. Dr. Rajni Malhotra Dhingra (Director, MAIMS) with HoDs of different departments of MAIT. This was followed by the enchanting Saraswati Vandana, invoking the blessings of the goddess of wisdom. To promote a sense of calm and unity among the crowd, a beautiful rendition of the ‘Kulgeet’ was performed. The heartfelt performance set the stage for an engaging and informative session.

Proceeding, Professor Dr. Neelam Sharma, the esteemed Director of MAIT, extended a warm welcome to the fresh faces, emphasizing the Institution's commitment to nurturing young minds and fostering holistic development. Her words of encouragement and guidance set a positive tone for the day. Shri Gyanendra Srivastava, CEO of the MATES, took the stage to share the Institution's vision and mission. He emphasized the pivotal role of innovation and discipline in education, setting the bar high for academic excellence. All the dignitaries present also encouraged the freshman year students, underlining the importance of co-curricular activities. They reaffirmed the students that the institute will provide them with a supportive platform to explore their passions.

A dynamic power-point presentation by the final year MBA students were presented for the first year students which offered students a comprehensive visual overview of the Institution's impressive track record, diverse academic programs, and state-of-the-art campus facilities. It also showcased the vibrant academic-cum-cultural societies, inviting students to explore their interests beyond academics.

A special segment highlighted the National Cadet Corps (NCC) and National Service Scheme (NSS), emphasizing the importance of community service, collaboration and leadership. The section highlighted how such qualities are essential for personal and professional skill building.

The event was a conglomeration of cultural and artistic talent. Affinity, the lead band of MAIT, mesmerized the audience with a captivating group performance. This was followed by stunning dance performances by the talented members of Funk-in-Motion, Official Dance Society of MAIT.

The session concluded with a heartfelt vote of thanks, acknowledging the dignitaries, dedicated faculty members, and enthusiastic students for their participation and patience. It reaffirmed the Institution's unwavering commitment to guiding and supporting its students throughout their academic journey, promising a bright and successful future for all.



